



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 1978/अग्रहायण 30, 1900
No. 367] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 21, 1978/AGRAHAYANA 30, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 587 (अ)/आ. व./ईख :—केंद्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1968 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों का ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, ईख की आधिकारिक न्यूनतम कीमत 10.00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर, जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम बसूली से सम्बद्ध है, और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बसूली की वृद्धि पर 11.7647 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप

महत्तु तुरन्त प्रभावी रूप से नियत करती हैं जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात पात्र प्रक्रिया वाले चीनी के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ता द्वारा कारखाना द्वार पर या किसी क्रय केंद्र पर परिवर्तित ईख के लिए चीनी वर्ष 1978-79 के लिए 30 सितम्बर, 1979 तक संदेय होगा। किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन होगी।

अनुसूची

क्रम सं.	कारखाने का नाम	ईख की रूपयों में प्रतीत क्विंटल न्यूनतम कीमत
1.	रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना	11.88
	न्यामत, रायबाग, जिला बेलगांव	

[फा. सं. 3-1/78-एस. पी. वाई. डी-2]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1978

G. S. R. 587(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to various factors mentioned in sub-clause (i) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 10.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent, or below with a premium of 11.7647 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes with immediate effect the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agent for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year 1978-79 until the 30th September, 1979 subject to the rebate payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugar price in rupees per qtl.
1.	Raibag Sahakari Sakkare Karkhana Niamit, Raibag, Distt. Belgaum	11.88

[No. 3-1/78-SPY (D.II)]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.